

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2621]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2015/अग्रहायण 17, 1937

No. 2621]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

**का.आ. 3306(अ).—**दीपस्तंभ (प्रक्रियात्मक) नियम, 1976 के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति के नियम 3, 4 और 11 के साथ पठित दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 17) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अनुसरण में और दिनांक 31-10-2014 फाइल सं. एलएच-11016/1/2014-एसएल से जारी अधिसूचना क.आ. 280(अ) के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतद्वारा 17 अक्टूबर 2014 से प्रवृत्त दो वर्ष की अवधि के लिए दीपस्तंभ के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करती है, नामतः :—

**सदस्य**

- |    |                                                               |   |                                    |
|----|---------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. | श्री अनिल देवली<br>सी.इ.ओ.<br>भारतीय राष्ट्रीय पोत-स्वामी-संघ | — | भारतीय पोत-स्वामी-संघ के प्रतिनिधि |
|----|---------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|

**संसद सदस्य**

- |    |                                   |   |                        |
|----|-----------------------------------|---|------------------------|
| 2. | एडवोकेट श्री नरेन्द्र केशव सवाईकर | — | संसद सदस्य — लोक सभा   |
| 3  | श्री अजय संचेती                   | — | संसद सदस्य — राज्य सभा |

सी.ए.सी.एल का शेष संयोजन दिनांक 31-10-2014 फाइल संख्या एल.एच.-11016/1/2014-एसएल से जारी अधिसूचना सं. 2235 का.आ. 2801(अ) के अनुसार पहले जैसा ही रहेगा !

[फा. सं. एलएच.-11016/1/2014-एसएल]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th December, 2015

**S.O. 3306(E).**— In pursuance of Sub-section (1) of Section 4 of the Lighthouse Act, 1927 (No.17 of 1927) read with Rules 3,4 and 11 of the Central Advisory Committee for Lighthouses (Procedural) Rules, 1976, and in continuation of notification S.O.No.2801(E) issued from file No.LH-11016/1/2014-SL dated 31<sup>st</sup> October, 2014, the Central Government hereby appoints the following members on the Central Advisory Committee for Lighthouses for a period of two years with effect from 17<sup>th</sup> October 2014, namely:-

**MEMBER**

- |    |                              |   |                        |
|----|------------------------------|---|------------------------|
| 1. | Shri Anil Devli<br>CEO, INSA | - | Representative of INSA |
|----|------------------------------|---|------------------------|

**MEMBER OF PARLIAMENT**

- |    |                                          |   |                  |
|----|------------------------------------------|---|------------------|
| 2. | Advocate (Shri) Narendra Keshav Sawaikar | - | MP (Lok Sabha)   |
| 3. | Shri Ajay Sancheti                       | - | MP (Rajya Sabha) |

The rest of the composition of the CACL remains the same as per Notification No.2235, SO No.2801(E) issued from File No. LH-11016/1/2014-SL dated 31.10.2014

[F. No. LH-11016/1/2014-SL]

BARUN MITRA, Jt. Secy.